

:-प्रेस नोट दिनांक 11.11.2020:-

थाना किला जनपद बरेली

थाना किला #bareillypolice द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही नकली पेन्ट व नकली पुट्टी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफास कर अभियुक्त अख्तर अली पुत्र मासूम अली नि0 बाजार संदल खां थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली पेन्ट , केमिकल , नकली पुट्टी बरामद की

!

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नगर बरेली व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल परिवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार तिवारी मय उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय उ0नि0 विकास यादव, उ0नि0 सनी, उ0नि0 रहमत अली, उ0नि0 अजय कुमार मय फोर्स के दिनांक 11.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर नकली पेन्ट, नकली वाल पुट्टी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया । जिसकी निशादेही पर अवैध रूप से चलाई जा रही नकली पेन्ट व वाल पुट्टी की फैक्ट्री खुलासा किया गया। पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 450/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि व धारा 51/63 कापी राईट एक्ट-1957 व धारा 102/103 व्यापार चिन्ह अधिनियम-1999 दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है । बरामदगी व गिरफ्तारी का विवरण निम्न प्रकार है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- अख्तर अली पुत्र मासूम अली नि0 बाजार संदल खां थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 38 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

नकली पेन्ट:- 1. नकली बर्जर पेन्ट 20 लीटर की 26 बाल्टी भरी 2. नकली नेरोलेक पेन्ट 20 लीटर की 23 बाल्टी खाली 3. नकली एशियन पेन्ट 20 लीटर की 9 बाल्टी खाली 4. नकली एशियन पेन्ट 10 लीटर की 8 बाल्टी खाली 5. नकली एशियन पेन्ट 4 लीटर की 1 बाल्टी खाली

केमिकल:- 1. नकली केमिकल पेन्ट 1 लीटर के 29 डिब्बे भरे 2. नकली केमिकल पेन्ट 500 ML के 50 डिब्बे भरे 3. नकली केमिकल पेन्ट 200 ML के 98 डिब्बे भरे

नकली पुट्टी:- 1. जे.के. वाल पुट्टी 20 कि.ग्रा. के 40 कट्टे भरे 2. बिरला व्हाइट पुट्टी 20 कि.ग्रा के 10 कट्टे भरे 3. जे.के. वाल पुट्टी के 99 कट्टे खाली 4. बिरला व्हाइट पुट्टी के 20 कट्टे खाली 5. रॉ मेटेरियल के 250 कट्टे व 100 गत्ते 6. 02 ड्रम केमिकल से भरे व 4 केन केमिकल 7. अल्ट्रा पुट्टी के 100 खाली कट्टे 8. कट्टों को तोलने वाले दो इलेक्ट्रॉनिक काटे 9. कट्टों के पैक करने वाली एक मशीन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक राजकुमार तिवारी थाना किला जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 विकास यादव थाना किला जनपद बरेली ।
3. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना किला जनपद बरेली ।
4. उ0नि0 सनी थाना किला जनपद बरेली ।
5. उ0नि0 रहमत अली थाना किला जनपद बरेली ।
6. उ0नि0 अजय कुमार थाना किला जनपद बरेली ।
7. का0 2234 निशान्त यादव थाना किला जनपद बरेली ।
8. का0 1782 दीपक नागर थाना किला जनपद बरेली ।
9. का0 404 मोहित कुमार थाना किला जनपद बरेली ।
10. का0 2816 राहुल कुमार थाना किला जनपद बरेली ।

**सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली ।**